

19.07.2023

To,

The General Manager
Listing Compliances

The General Manager
Listing Compliances

BSE Limited

National Stock Exchange of India Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex

Dalal Street, Mumbai—400001 Bandra (East), Mumbai-400051

Scrip Code:533644 Symbol: UJAAS

Sub: Submission of Notice to Shareholders in respect of transfer of Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF)

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Section 124 of the Companies Act, 2013 (the "Act"), Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("the Rules") and Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, We are enclosing herewith copies of the Notice published by the Company for the attention of Equity shareholders in respect of transfer of Equity Shares to IEPF in the following newspapers dated 19th July 2022:

- 1. Free Press
- 2. Choutha Sansar


This is for your information and record.

Thanking you,
For Ujaas Energy Li\mited
(Company Under CIRP)

Sarvesh Digitally signed by Sarvesh Diwan Date: 2023.07.19

Sarvesh Diwan
Company Secretary
& Compliance Officer





ISLAMABAD: Pakistan's Chief Justice Umar Ata Bandial on Tuesday rejected the government's request to constitute a full court bench to hear a set of pleas challenging the military trials of those involved in the May 9 violence targeted at military installations and

government buildings. A Supreme Court panel led by Chief Justice Bandial is hearing a set of petitions challenging trial of those civilians in military courts who were arrested following vandalism on May 9 when former prime minister Imran Khan was arrested.



Russia targets key Ukraine **Black Sea port of Odesa**

Day after halting grain export deal

AP / Kyiv

Ukrainian forces shot down scores of exploding drones and six cruise missiles from a pre-dawn Russian attack on the port of Odesa on Tuesday. Ukrainian authorities said, a day after Moscow broke off a deal that had allowed Kviv to ship vital grain supplies from the Black Sea city during the

The Russians first sought to wear down Ukraine's air defenses with the drones and then targeted Odesa with six Kalibr cruise missiles, the Ukrainian military's Southern Command said. All six missiles and 25 drones were shot down by air defences in the Odesa region and other areas in the south but their debris and shock waves damaged some port facilities and a few residential buildings, injuring an elderly man at his home, officials said.

Andriy Yermak, the head of Ukraine's presidential office, said the attack showed the Kremlin is ready to endanger the lives of millions of people around the world who Ukrainian grain exports. Hunger is a growing threat in Africa, the Middle East and Asia, and high food



An elderly man exits a car in front of a heavily damaged building in Lyman, Donetsk region, on Monday

prices have pushed more people into poverty

The world must realise that the goal of the Russian Federation is hunger and killing people," Yermak said. "They need waves of refugees. They want to weaken the West with this.

The United Nations and Ukraine's Western allies slammed Moscow for halting the Black Sea Grain Initiative, saving it put many lives in peril. The Kremlin said the agreement would be suspended until Moscow's demands to lift restrictions on exports of Russian food and fertilizer to

the world are met. The Russian Defence Ministry said on Tuesday its forces had foiled a Ilkrainian attack on occupied Crimea using 28 drones

The ministry said 17 of the attacking drones were shot down by air defences and 11 others were iammed by electronic warfare means and crashed. It said there was no damage or casualties.

The reported attack came a day after the Kremlin blamed Ukraine for striking a bridge in Crimea that links Russia to Moscow-annexed Crimea and is a key supply route for

S Korea-US group meets in response to North N-threats

AP / Seoul

A bilateral consulting group of South Korean and U.S. officials met Tuesday in Seoul to discuss strengthening their nations' deterrence capabilities against North Korea's evolving nuclear threats.

The Nuclear Consultative Group was established as part of agreements Presidents Joe Biden and Yoon Suk Yeol made when they met in April

Seoul officials say the body is tasked with sharing information on nuclear and strategic weapons operation plans and discussing joint operations. The US would retain operational control of U.S. nuclear weapons, and Washington officials say the group's establishment and other steps announced in April were meant to ease South Korean worries about North Korean provocations while keeping Seoul from pursuing its own nuclear program.

The group's inaugural meeting "will serve as an important starting point to establish powerful, effective Korea-U.S. extended

deterrence," Yoon said during a televised Cabinet Council meeting, referring to a U.S. security commitment to use full U.S. capabilities, including nuclear, to protect its allies. Yoon said the allies will make substantial efforts to resolve North Korean nuclear threats based on "the Korea-U.S. alliance that is upgraded with a new, nuclear-based

paradigm. Yoon visited a conference room to meet the South Korean and US officials at group's inaugural meeting at the presidential office in Seoul. Yoon told them the two countries must holster their deterrence capabilities to make North Korea not dare to think about using nuclear weapons. according to Yoon's office.

Earlier, Sabrina Singh a deputy Pentagon press secretary, told reporters Monday that the goal of the meeting is to begin implementing the Biden-Yoon declaration in April, "which reaffirms our ioint extended deterrence in the region."

The meeting was cochaired by US National Security Coordinator for Indo-Pacific Affairs Kurt Campbell and South Korea's

deputy national security director. Kim Tae-hyo. North Korea's nuclear ambitions have taken on new urgency after it openly threatened to use nuclear weapons in potential conflicts with its rivals and carried out about 100 missile tests since the start of last year.

US soldier held by North Korea

Seoul: US officials say an American detained after crossing the border from South Korea into North Korea was a US soldier. There were no immediate details about how or why the soldier crossed the heavily fortified border or whether the soldier was on duty. The officials spoke Tuesday on the condition of anonymity to discuss the matter ahead of a public announcement.

UJAAS ENERGY LTD CIN: L31200MP1999PLC013571

ujaas Regd. Off.: Survey No. 211/1, Opp. Sector C & Metalman Sanwer Road Industrial Area, Indore-452015 (M.P.) INDIA

Contact No.: 0731-4715300 ♦ Fax No.: 0731-4715344 ♦ E-mail: cs@ujaas.com ♦ Website: www.ujaas.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND & EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

In terms of the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read with IEPF Rules, the company is required to transfer Unclaimed Dividend for the Financial Year 2015-16 and the equity shares in respect of which dividend remain unclaimed for seven consecutive years to the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF).

Company has uploaded details of such Shareholders and shares due for transfer to the Demat Account of IEPF Authority on its website i.e. www.ujaas.com . Shareholders are requested to verify the details of shares liable to be transferred to IEPF and claim their unclaimed dividends expeditiously by 21st October 2023.

Shareholders may note that they may claim both the unclaimed dividends and the shares so transferred to IEPF Authority by submitting an online application IEPF in Form IEPF-5 (available on the website www.iepf.gov.in) and sending a physical copy thereof, duly signed, along with other requisite documents enumerated in the said form IEPF-5 to the company at its address mentioned above.

Shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF may note that for the purpose of transfer, the company would issue new share certificate and inform the concerned Depository by way of corporate action to convert the shares into demat form and transfer in favour of IEPF. The original share certificate upon such issue, will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable For shares held in demat mode, the company will process the transfer of shares with the concerned depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of IEPF. The shareholders may further note that the details uploaded by the company on its website shall be treated as adequate notice in respect of issue of new share certificate(s) by the company for the sole purpose of transfer of shares to IEPF pursuant to said IEPF Rules.

In case the company does not receive any communication from the concerned shareholders by 21st October 2023, it shall transfer the shares to IEPF pursuant the said IEPF Rules. Please note that no claim shall lie against the company in respect of unclaimed dividend and shares so transferred to IEPF.

In case the Shareholders are unable to claim shares for which dividends are unclaimed before due date, the Company shall with a view to comply with the requirements set out in IEPF Rules, initiate necessary action for transfer of shares to Demat Account of IEPF Authority as per the procedure prescribed in the IEPF Rules.

In case of any clarification, Shareholders may contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Company at:

Bigshare Services Private Limited

S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra - 400093 For Ujaas Energy Limited

Date: 18/07/2023

Servesh Diwan Company Secretary & Compliance Officer Place: Indore

POSSESSION NOTICE - (for immovable property) Rule 8-(1)
Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline lousing Finance Ltd.) (IIFL HEL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security nterest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the orrowers / co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said nate. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IIFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereof

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act. If the borrower clears the dues of the "IFL HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets.

Name of the Borrower(s)	Description of secured asset (immovable property)		Date of Demand	Date of Possession	
Ujjain BRANCH	All that piece and parcel of: Plot No 284, With Land	Rs. 21.90.705/-	Notice	rossession	
Mr. Sanjay Dubey & Mrs. Monika Dubey (Prospect No. 881729)	Area Ad Measuring 775 Sq.ft., Super Built Up Area Ad Measuring 845 Sq.ft. and Carpet Area Ad Measuring 700 Sq.ft., Mangal Residency, Gram	(Rupees Twenty One Lakh Ninety Thousand Seven	21-Feb-	15-Jul-23	
	Lalpur, Ujjain, 455001, Madhya Pradesh, India.	Hundred Five Only)			

For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: 1st Floor, 29 Nikas Chouraha, Ankpath Marí Nai Sadak Ujjiain (MP) - 456001/or Corporate Office:Plot No.98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana Place: Ujjain Date: 19/07/2023

Sdf- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Limite

CHINESE FOREIGN MIN MISSING FOR THREE WEEKS

reported.



ambassador to Washington DC, who is considered a protege of Chinese leader Xi Jinping, Qin had been expected to play a key role in a string of high-level visits by US officials

AGENCIES / BEIJING

China's foreign minister, Qin Gang, has not been seen in public for over three weeks. despite a flurry of high-profile diplomatic efforts to repair ties with the United States, The Guardian reported. As a former ambassador to Washington DC, who is considered a protege of Chinese leader Xi Jinping, Qin had been expected to play a kev role in a string of highlevel visits by US officials.

The 57-year-old has not been seen in public for 23 days - his last reported engagements were on 25 June. His last public appearance was for a meeting with Sri Lankan Foreign Minister Ali Sabry in Beijing.

While officials indicate that he missed the recent ASEAN Foreign Ministers' meeting due to health reasons people have remained skeptical.

When asked about his

whereabouts on Monday, Foreign Ministry spokesperson Mao Ning said she had no information to provide, BBC

It is not uncommon for high-profile figures in China to disappear for long periods of time without much initial explanation, only to surface later as the subject of a criminal investigation. Or they can disappear and then reappear with no explanation for why they have been out of

WESTERN RAILWAY VARIOUS ENGINEERING WORKS

Divisional Railway Manager (WA), Western Railway, 6th floor, Engg., Deptt., Mumbai Central - Mumbai - 400 008 nvites E-tender as below

Sr. No.	Tender Notice No. & Date	WORK AND LOCATION	Approx. cost of work ₹	EMD ₹
1		Santacruz to Virar section:- Provision of cover shed connection of FOB staircase to COP	6,06,40,401.37	4,53,200
2	BCT/23-24/133 dt 18.07.2023	Santacruz to Virar section:- Replacement to platform's facia and improvement to platform walling	4,11,61,574.05	3,55,800
		& Time of submission: on 11.08.2023 till 15.00 Hrs. Date & Tim ding detailed tender conditions, please visit www.ireps.gov.in		

0420 Like us on : f fac

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED (A Scheduled Commercial Bank) Regd. Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur - 302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381) APPENDIX IV [SEE RULE 8(I)] POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank) under the "Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest [Act, 2002 (54 of 2002)] and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice on the date as mentioned below calling upon the borrowers to repay the amount mentioned in the said notice within 60 days from the date of receipt of the said notice as per the

details given in below table: -						
Name of Borrower/Co-Borrower/ Mortgagor/Guarantor/Loan A/c No.	13(2) Notice Date & Amount	Description of Mortgaged Property	Date of Possession Taken			
(Loan A/C No.) L9001070119564861, Anil Kumar Yadav (Borrower), Smt. Sima Yadav (Co-Borrower)	15-Apr-23 ₹ 32,67,897/- Rs. Thirty-Two Lac Sixty- Seven Thousand Eight Hundred Ninety-Seven Only as on 12-Apr-23	All That Part And Parcel Of Residential/Commercial Property Land / Building / Structure And Fixtures Property Of Situated At Flat No G-1 And G-2, Ground Floor Shivkiran Avenue, Plot No 68, Ram Rahim Colony Dist - Indore, MP. Admeasuring 130.11 Sq.Mtr.	14-Jul-23			
(Loan A/C No.) L9001060114344815, Mohit Parmar (Borrower), Dharmendra Kumar (Co-Borrower), Smt.Manisha Bai (Co-Borrower) Hariom Vishkarma (Guarantor)	14-Mar-23 ₹ 2,73,474/- Rs. Two Lakh Seventy- Three Thousand Four Hundred Seventy-Four Only as on 13-Mar-23	All That Part And Parcel Of Residential/Commercial Property Land / Building / Structure And Fixtures Gram Panchayat 21 1881/3 Bolai Shajapur Gulana, MP. Admeasuring 46 Sqft	15-Jul-23			
(Loan A/C No.) L9001060115727251, Nitesh Mewada (Borrower), Jasmat Mewada (Co-Borrower),	15-Apr-23 ₹ 4,37,938/- Rs. Four Lac Thirty-Seven Thousand Nine Hundred Thirty-Eight Only as on 12-Apr-23	All That Part And Parcel Of Residential/Commercial Property Land / Building / Structure And Fixtures Property Situated At, House No. 83, Ward No. 05, Ph No. 22, Gram -Fulen Akodia, Teh Shujalpur, Distt Sahajapur, Madhya Pradesh Admeasuring 520 Square Feet East: House Of Vijay Singh West: Lane North: Road South: House Of Ghanshyam	15-Jul-23			
(Loan A/C No.) L9001060123115420, Sanjay Makwana (Borrower), Smt.Pooja Bai Makwana (Co- Borrower),	15-Apr-23 ₹ 5,08,910/- Rs. Five Lac Eight Thousand Nine Hundred Ten Only as on 12-Apr-23	All That Part And Parcel Of Residential/Commercial Property Land / Building / Structure And Fixtures Property Situated At Hn 670, Phn 17, Wn 13, Vill & Tehsil - Mohan Badodiya, Dist - Shajapur, Madhya Pradesh Admeasuring 75 Sqyds East: Road West: Road North: House Of Kanhaiya Lal South: House Of Mohan	15-Jul-23			

The borrower having failed to repay the amount, therefore notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein above mentioned table in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said [Act 2002] read with Rule 8 of the said rule on the date mentioned in the above table.

"The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets."

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank) for the amount and interest thereon mentioned in the above table

Date : 18/07/2023 Authorised Officer AU Small Finance Bank Limited CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

CAPRI GLOBAL Registered & Corporate Office: 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg
LOUISING FINANCE LIMITED Lower Parel, Mumbai- 400013, Circle Office: - Capri Global Capital Limited 9B, 2nd Floor, HOUSING FINANCE LIMITED LOV

APPENDIX IV POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Capri Global Housing Finance Limited (CGHFL)

under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the propert described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub – section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeemthe secured assets The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of CGHFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon

S. Name of the Borrower(s) / N. Guarantor(s)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	
1. (Loan Account No. LNHLUJN000046569 of our Ujjain Branch) Navin Sharma (Borrower) Mrs. Jyoti Sharma (Co-Borrower)	All that piece and parcel of House Built up on South Side of Plot No. 18 and North Side of Plot No. 19, Greater Rattan Avenue Extension Colony, M.R. 5 Road, Ujjain, Madhya Pradesh.	Rs.	14-07-2023

INDORE MUNICIPAL CORPORATION, INDORE

NIT No.: 06/SBM/23-24 TENDER NOTICE

Online bids are invited for SITC of the following equipment. Tender forms may be purchased online by the bidders, fulfilling eligibility criteria as per RFP document.

S.No.	Name of Work	Probable Amount of Work	Cost of Tender Form	Earnest money Deposit	Time allowed for Completion
1	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Transfer Station equipment's. (04 No. Static Compaction System with Loading Mechanism, 10 No. Detachable Containers (20 cum. Capacity) and 06 No. Hook Loader with vehicle	₹ 9.0 Cr./-	₹ 20,000/-	₹ 4.50 Lakh	06 months

Key Dates for Tender processing are as under:-

S. No.	Description	Date and Time
1.	Last date for Purchase & submission of Tender (Online)	17.08.2023 till 17:30 Hrs.
2.	Pre Bid Meeting at Smart City Office Nehru Park	27.07.2023 at 15:00 Hrs.

Notes:

. Tender Document and other details shall be available on Website-www.mptenders.gov.in $II. \ \ Amendment to \ NIT, if any would be published only on website \underline{www.mptenders.gov.in}.$

Executive Engineer Indore Municipal Corporation, Indore

kotak

KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED

Registered Office at: 27 BKC , C 27, G Block , Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051 (Maharashtra Branch Office: 5th Floor, Metro Tower, Vijay Nagar, Near Hotel Mangal, City Indore - 452001

POSSESSION NOTICE

novable property) (As per Appendix IV read with Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforce

WHEREAS, The undersigned being the Authorized Officer of KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED, a banking compar meaning of the Banking Regulation Act, 1949 having it's Registered Office at 27BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051, branch and Regional office at Kotak Mahindra Bank Ltd, 5th floor, Metro Tower, A.B Road, Near Vijay Nagar Square, Indore 452010 (MP) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (2) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 sued a demand notice to renay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The

348127255) and Facility Account No. BBA_WC TL No. 5941TL0100000041 (CRN 348127255) And Facility Account No. BBA_WC TL No. 5941TL0100000055 (CRN 348127255) and loan (I) aggregating to Rs.10,43,787.14/-(Rupees:Ten admessing 1800 SQ FT	Symbol Possess
Facility Account No. BBA_WC, 5941CL0100000011 (CRN 348127255) Handred eighty seven and fourteen hundred eighty seven and fourteen paisa Only) BBA_WC. 5941TL0100000041, (CRN 348127255) the Loan (I) aggregating to Rs. 14,195.26-(Rupees: Fourteen thousand one hundred ninety five and twenty six paisa only) BBA_WC TL No. 5941TL0100000055 (CRN 348127255), the Loan (I) aggregating to Rs. 2,56,571.19-(Rupees: Two lakhs fifty six thousand five hundred seventy one and nineteen paisa only) BBA_WC TL No. 5941TL0100000055 (CRN 348127255), the Loan (I) aggregating to Rs. 2,56,571.19-(Rupees: Two lakhs fifty six thousand five hundred seventy one and nineteen paisa only) BBA_WC S941CL0100000011 (CRN 348127255), the Loan (I) aggregating to Rs. 2,56,571.19-(Rupees: Two lakhs fifty six thousand five hundred seventy one and nineteen paisa only) BBA_WC S941CL0100000011 (CRN 348127255), the Loan (II)	Symbol Possess 17-07-20

aggregating to Rs.1,50,530.15/-(Rupees One lakhs fifty thousand fiv

hundred thirty and fifteen paisa only)

Total aggregating outstanding in the Loan (I) & Loan (II) amounting to Rs.14,65,083.74/- (Rupees: Fourteen

lakhs sixty five thousand eighty three

and seventy four paisa Only)

as on 18/04/2023, (loan No. Rhb 616490 And Crn 900054431) Demand Notice 1. Mr. Saniay Rajendra Chouhan Date: 19/04/2023 (Loan No. RHB 616490 and CRN Having Address: 3, Bakshi Gali Nandlalpura 900054431) Rs 27,39,936.99 (Rupees Twenty

Borrower Thorugh There Legal Heirs) 2. Rajendra Laxminarayan Chouha Having Address: 3. Bakshi Gali Nandlalpura Ind Indore (mp) 452001.

(Property Owner/co Borrower/guarantor)

3. Manish Chouhan Having Address: 3, Bakshi Gali Nandlalpura Ind Indore. (Co Borrower/guarantor/ Legal Heirs)

5. Mr. Manish Kankre

.. Co borrower/ Guarantor

Having address: House No.22 -New and Old

Having address: House No.22 -New and Old

No.24 Kanungo Bakhal Indore 452001 M.P.

No.24 Kanungo Bakhal Indore 452001 M.P

4 Shweta Chouhan W/o Late Sanjay Chouhan Having Address: 3, Bakshi Gali Nandlalpura Ind Indore Mp 452001 (Co Borrower/guarantor/ Legal Heirs) 5.Kamla Bai W/o Late Laxmi Narayar Having Address: 3, Bakshi Gali Nandlalpura

Ind Indore Mp 452001 (legal Heirs) 6. Sharda Chouhan W/o Late Rajend Having Address: 3. Bakshi Gali Nandlalnura Ind Indore Mp 452001 (legal Heirs) 7. Vishal Chouhan S/o Late Raiendra

Having Address: 3, Bakshi Gali Nandlalpura Ind Indore Mp 452001 (legal Heirs) 8.Lokesh Chouhan S/o Late Rajendra

Having Address: 3, Bakshi Gali Nandlalpura Ind Indore Mp 452001 (legal Heirs)

9. Samarth Chouhan Age 10 Year (minor) S/o Late Mr. Sanjay Rajendra Chouhan Through Natural Guardian Mother Mrs. Shweta Chouhan

House Property House No. seven lakhs thirty nine thousand nine Bakshi Gali Nandlalpura hundred thirty six and ninety nine paisa only) as on 17-04-2023

Indore plot area 776 sq ft District Indore (M.P) bounded as under West: House of Wajir Saheb South: Wajir Saheb

Mortgage over following

All that piece and parcel of

the Properties, Residential

Symbolic

13-07-2023

Having Address: 3, Bakshi Gali Nandlalpura Ind Indore Mp 452001 (legal Heirs) The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 9 of the said rules on the date as mentioned above in "Date of Possession" Colum

The Borrowers mentioned herein above in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to charge of KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED, for an amount as mention in this notice, along with future interest at contractual rate and substitute interest, incidental expenses, costs and charges etc. due w.e.f. the very next date of the status of outstanding amount date showing in the above mention details, till the date of full repayment and/ or realization. Further the borrower's attention invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

lease note description of properties is as mentioned above

Date: 19/07/2023

(Authorized Officer) For Kotak Mahindra Bank Limited

कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ली भाजपा की सदस्यता

भोपाल,(निप्र)। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कार्यालय में सुरखी के मुस्लिम समुदाय के लोगों सहित लगभग २०० कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंत्री गोविंद सिंह राजपुत के समक्ष भाजपा की सदस्यता ली। इस अवसर पर राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सभी लोगों को भाजपा का गमछा पहनाकर स्वागत किया एवं मिटाई खिलाई। इस अवसर पर कांग्रेस छोडकर भाजपा में आए अल्पसंख्यक मंडल के असलम खान ने कहा कि सुरखी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर हम सभी लोग मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के नेतृत्व में भाजपा में हुए हैं क्षेत्र में विकास कार्यों में हम और हमारे सभी साथी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने क्षेत्र का विकास करने में सहयोग करेंगे।

करणी सेना के बाद राजपूताना संघ ने बढ़ाई सरकार की मुश्किल

भोपाल,(निप्र)। करणी सेना के बाद अब जय राजपताना संघ सरकार की मसीबतें बढ़ाने वाली है। जय राजपूताना संघ ने मध्यप्रदेश में सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के सरलीकरण की मांग की है। राजपुताना संघ के संस्थापक सदस्य भंवर सिंह रेटा ने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने मोदी सरकार द्वारा सवर्णों को १० प्रतिशत आरक्षण देने की जो नियम बनाए थे। उसमें सरलीकरण किया गया है जबकि मध्यप्रदेश सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। वही सरकार द्वारा राजपूताना संघ और क्षत्रिय समाज के लिए जो घोषणाएं की गई थी। वह भी पूरी नहीं की गई यदि सरकार राजपूताना संघ की मांगे नहीं मानता तो २०२३ के विधानसभा चुनाव में राजपूताना संघ बीजेपी का विरोध करेगी।

महिला से सरेराह गाली-गलौज

भोपाल,(निप्र)। गुनगा इलाके के एक गांव में रहने वाली एक महिला ने पुरानी रंजिश के चलते दुसरी महिला से सरेराह गाली-गलौज करना शरू कर दिया। इसी दौरान आरोपी महिला का पति और देवर आ गए और पीड़िता से अभद्रता करना शुरू कर दिया। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की अभी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। सोमवार दोपहर की बताई जा रही है। थाना प्रभारी रमेश राय ने बताया कि दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं। पूर्व में एक शादी समारोह में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई थी। तब से ही दोनों पक्ष एक दूसरे पर मुकदमे दर्ज कराते आ रहे हैं। यह तीसरी एफआईआर दर्ज कराई गई है।



राष्ट्रपति कलेक्टर भार्गव को किया पुरस्कृत

विदिशा ,(निप्र)। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में विदिशा कलेक्टर उमाशंकर मार्गव, अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर, अधीक्षक मू-अभिलेखं विजय सिंह सराटिया को डिजिटल रिकार्ड संधारण के कार्यों में राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय कार्यों के संपादन पर १८ जुलाई को पुरस्कृत किया गया है।भारत सरकार द्वारा डिजीटल इंडिया लैंड रिकार्ड माइग्रेशन प्रोग्राम के तहत विदिशा जिले में शत पतिशत डिजीटल रिकार्ड संधारण होने पर विदिशा जिला भमि सम्मान परस्कार (प्लेटिनम ग्रेड सर्टिफिकेट) के लिए

भोपाल,(निप्र)। मध्यप्रदेश में अभी बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग का मानना है कि 30 सितंबर तक मॉनसन जारी रहेगा। ऐसे में जिन जिलों में कम बारिश हुई है। वहां भी अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

मध्यप्रदेश के करीब 28 जिलों में सुबह से रुक-रुककर बारिश हो रही है। भोपाल में बड़े तालाब का जलस्तर 0.35 फीट बढा है। तालाब का लेवल 1660.90 से बढकर 1661.25 फीट पर पहुंच गया है। जबलपुर में परियट नदी के पुल को पार करते समय युवक बाइक समेत बह गया। मंगलवार को उज्जैन और गुना में एक इंच पानी बरसा। सिवनी-भोपाल में आधा इंच पानी गिरा। 28 जिलों में भारी बारिश के आसारः मौसम विभाग-सीनियर मौसम विभाग की माने तो बारिश के 3 सिस्टम एक्टिव हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर,



ग्वालियर समेत प्रदेश के 28 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में जुन से अब तक औसत से 22% ज्यादा बारिश हो चुकी है। प्रदेश की अब तक की औसत बारिश 11.8 इंच है, लेकिन मंगलवार तक 13.8 इंच पानी गिर चुका है। वैज्ञानिक अशफाक हसैन ने बताया कि

अभी जारी रहेगा बारिश का दौर

मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया अलर्ट

साइक्लोनिक सकुर्लेशन 18 जुलाई से बनेगा। इससे 20 से 26 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बैतुल और बुरहानपुर के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। यहां 24 घंटे में 8 इंच से ज्यादा बारिश होने

प्रदेश में दस्तक अभियान की शुरूआत

नौनिहालों को बीमारी से दूर रखने की कवायद

भोपाल.(निप्र)। मध्यप्रदेश में 5 साल तक के बच्चों को बीमारियों से दुर रखने और उनके सुचारू इलाज के लिए ह्यदस्तक अभियानह्न की शुरूआत की गई है। यह अभियान 18 जुलाई से 31 अगस्त तक पूरे मध्यप्रदेश में चलाया जाएगा।

जिसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी ने भोपाल में किया। इस अभियान के तहत आंगनबाडी कार्यकर्ता घर-घर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करेंगे और घर पर ही उन्हें दवा आदि का सेवन भी करवाएंगे।

आंगनबाड़ी 741 सुनहरी बाग गीतांजलि चौराहे के पास स्थित केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री ने 5 साल से छोटे बच्चों को दवाओं का सेवन भी कराया। इस अभियान में 5 वर्ष के लगभग 3 लाख बच्चे शामिल होंगे।

बेहद कारगार साबित होगा दस्तक अभियानः इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी ने कहा कि बच्चों में दस्त, एनीमिया आदि रोगों की रोकथाम के लिए दस्तक अभियान बेहद ही कारगर साबित होगा. लेकिन इसमें लोगों का सहयोग भी जरूरी है। अमुमन देखने में आता है कि अभियान तो शुरू हो जाते हैं, लेकिन आमजन उन अभियान में बढ-चढकर हिस्सा नहीं ले पाते। ऐसे में आशा-उषा कार्यकताओं के साथ आंगनबाडी कार्यकताओं की जिम्मेदारी है कि इन अभियानों को सफल बनाएं. जिससे आने वाली पीढी स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुरक्षित हो सके।

की ही सुनी जा रही फरियाद

यह आरोप लगाए और बैठ गए धरने पर

भोपाल (निप्र)। राजधानी भोपाल में मख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास के बाहर कुछ लोग धरने पर बैठ गए। वह अधिकारियों पर आवेदन ना लेने के आरोप लगा रहे थे। दरअसल में सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि वह कई विधानसभा से यहां पर अपनी शिकायत लेकर के मख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहुंचे हैं, मगर अधिकारी उनके आवेदन नहीं ले रहे हैं। यह कह कर उन्हें बाहर कर दिया जा रहा है कि आप किसी और विधानसभा से हैं ,वहां पर बैठे लोगों का आरोप है कि सिर्फ बुधनी विधानसभा के लोगों के आवेदन लिए जा रहे हैं और आधार कार्ड देख कर के दूसरी विधानसभा से आए पीडितों को वापस कर दिया जा रहा है। वहीं आम लोगों के साथ धरने पर बैठे भारतीय किसान युनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि सिर्फ बुधनी विधानसभा के लोगों को ही प्राथमिकता दी जा रही है ।आधार कार्ड देख कर के जो बाहर दूसरी विधानसभा के लोग आए हैं उनकी नहीं सुनी जा रही है। अनिल यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री पुरे प्रदेश के हैं ना कि एक विधानसभा के । हालांकि पुलिस अधिकारियों ने धरने पर बैठे लोगों को समझाइश दी है और उनकी समस्या को सुनने का आश्वासन भी दिया है।



भोज के साथ प्रारंभ हुआ स्कूल चलो अभियान

शासकीय माध्यमिक शाला सिरावली कुरवाई में स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ सरपंच प्रतिनिधि विजय सिंह दांगी ने अपनी ओर से तिथिभोज का आयोजन कराया गया। खीर. पुरी, सब्जी, अचार पापड, आम और सलाद बच्चों को परोसा गया। सरपंच प्रतिनिधि श्री विजय सिंह ने बताया कि इस प्रकार के सामूहिक भोज से ना केवल बच्चों को लाभ होता है बल्कि जो व्यक्ति तिथि भोज कराता है उसको भी आत्म संतुष्टि मिलती है। इसके साथ ही मां की बगिया

,(निप्र)। में लगे पेड़ों का अतिथियों की उपस्थिति में तृतीय जन्मदिन मनाया गया, ताकि हम सब को यह एहसास रहे कि जो पेड हमने लगाए थे उसका संरक्षण हम कर रहे हैं। तभी हम उन जीवित पेडों का जन्मदिन मना सकते हैं। ज्ञात हो की तीन बर्ष पूर्व विद्यालय में जिला पीएम पोषण प्रभारी कीर्ति चौहान द्वारा कटहल का पौधा रोपण किया गया था। जो आज सात फीट से ऊपर हो गया है। इससे पूर्व विद्यालय को किचिन शेड के लिए प्रथम स्थान सहित सहयोग राशि सहित पुरस्कृत भी किया जा चुका है।

बुधनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों आयुर्वेद चिकित्सकों की मांग सरकार बढ़ाए वेतन और सम्मान

भोपाल.(निप्र)। राजधानी भोपाल मैं आयुर्वेद चिकित्सा के डॉक्टर ने अपनी मांगों को लेकर पत्रकार वार्ता की। उनकी मांग है हमारी वेतन काफी कम है इसको बढ़ाया जाए। आयुर्वेद पद्धतियों को विश्व स्तर पर सराहा जा रहा

आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. राजेश कुमार मालवीय ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयुर्वेद को स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। आयुर्वेद वर्ष 2013 में इन सभी के वेतनमान पुनरीक्षित किए गए हैं और

2006 से काल्पनिक गणना करते हुए वर्ष 2013 को प्रदान किए जा चुके हैं किंतु आयुष शिक्षको का वेतन पुनरीक्षण नहीं हुआ है। यहां तक कि मध्य प्रदेश सरकार के अन्य विभागों जैसे टेक्निकल एजुकेशन हायर एजुकेशन के शिक्षकों के वेतनमान भी आयुष शिक्षकों से अधिक है।प्रदेश में प्रत्येक संभाग में आयुर्वेद महाविद्यालय हैं,नगर के खुशीलाल शासकीय आयुर्वेद संस्थान में प्रतिदिन की रोगी संख्या के 1000 है। विभिन्न आपातकालीन स्थितियों में जैसे कोरोना जैसी विकराल एवं भयावह स्थिति में भी अपने जीवन को दाँव पर लगाकर आयुष महाविद्यालय के शिक्षकों ने प्रथम मोर्चे पर रहकर घर-घर जाकर आयुष किट का वितरण किया एवं जन-सामान्य को मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं से मुक्ति दिलाने की ईमानदार कोशिश की थी।

विदिशा दस्तक अभियान का शुभारंभ आज जिला स्तरीय कार्यक्रम में पूरनपुरा लाल धाउ स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 38/156 में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व पालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि श्री राकेश शर्मा. पार्षद श्रीमती शिवानी सरबैया. सांसद प्रतिनिधि श्री बजेश लोधी. श्री दिनेश कुशवाह के अलावा जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ डीके शर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी श्री बीएम वरूण. जिला स्वास्थ्य अधिकारी पुनीत माहेश्वरी, डीपीएम श्री आशुतोष

नाम परिवर्तन सूचना

कि पहले मेरा नाम रेखा सोनवानिया D/O राम लाल सोनवानिया था। शादी के बाद मेरा नाम निशा मालवीया W/O दिलीप मालवीया हो गया। इसलिए अब मुझे निशा मालवीया से ही जाना और ह्याना जाए ।

निशा मालवीया W/O दिलीप मालवीया पताः ओंकार कॉलोनी धामनोद, वार्ड ०७. धार. मध्य प्रदेश - 454552

PUBLIC NOTICE

Basera" Project situated at Omaxe City -Mayakhedi, AB Road Bypass, Indore (M.P.) was allotted jointly in the name of Late Shr Raychandra Kanare S/o Shri Jaimal nare & Smt. Chavarani Kanare W/o Late Shri Raychandra Kanare resident o Nagar Indore (M.P.) 452010 by M/s Omaxe Ltd., Regional Office: First Floor, 58 Orbit Mall, Scheme No. 54, A.B. Road, Indore- 452001. After death of Late Shri Raychandra Kanare of 28.06.2017, following people have claimed to b his legal heirs:

. Mr. Aman Kanare Son 24 3. Mr. Priyank Kanare Son 18

mentioned plot. If anybody has any objection in the aforesaid transfer of allotment, they can submit their objection with valid proofs within days from the date of publication of this notice in he office of "M/s. Omaxe Ltd." otherwise it wil allotment and "M/s. Omaxe Ltd" shall proceed to transfer the allotment of Late Shri Raychandra Kanare in the above mentioned plot in favour the above mentioned persons and shall treat them as the joint allottees of the said plot to the on of other legal heirs.

Sd/- Omaxe Ltd. Regional Office: 58, First Floor, Orbit Mall Scheme No. 54, A.B. Road, Indore-452001 Ph.: 0731-4007000.

बच्चों को दवा पिलाकर दस्तक अभियान का शुभारंभ

घटे के द्वारा मां सरस्वती जी के चित्र के समक्ष दीप प्रजजवलन कर किया गया। दस्तक अभियान का शुभारंभ छोटे बच्चों को

जनप्रतिनिधियों के द्वारा विटामिन ए की दवा पिलाकर किया गया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टंडन ने बच्चे वैभव पिता पंकज को, सांसद प्रतिनिधि श्री राकेश शर्मा ने बच्चे रूपांश को दवा पिलाई है साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी बच्चों को विटामिन ए की खुराक देकर बच्चों को टाफी प्रदाय की गई।

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिये समन (आदेश 5 नियम 1 और 5) श्रीमान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश महोदय, कुटुम्ब न्यायालय इंदौर

> 217, उषागंज,जावरा कम्पाउंड, इंदौर (मप्र) PNo 667/03-07-23 हिन्द विवाह प्रकरण क्रमांक 280/2023

पेशी दिनांक 11/08/2023 अमोल कर्पे पिता अशोक कर्पे,उम्र 43 वर्ष

निवासी-मकान नंबर 369, लोकमान्य नगर, इंदौर (मप्र) .. प्रार्थी विरुद्ध श्रीमती रितृजा उर्फ अस्मिता पति अमोल कर्पे, उम्र-43 वर्ष, व्यवसाय-नौकरी

निवासी-मकान नंबर 19, श्रुति शेल्टर, निपानिया, इंदौर (मप्र) ..प्रतिप्रार्थी प्रार्थी के द्वारा आपके विरुद्ध एक प्रकरण अंतर्गत धारा 13(ए) हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है, अस्तु आप इस न्यायालय में दिनांक 11/08/2023 को दिन के 11 बजे दावे में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिए आपको नोटिस दिया

दिया जाता है कि आप इस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित दाखिल करे और उस दिन ऐसे सभी दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हो, पेश करे, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा मजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो। यदि किसी कारण से उक्त नियत दिनांक 11.08.2023 को पीठासीन अधिकारी

आप नियत दिनांक को इस न्यायालय में हाजिर उपसंजात रहे। आपको यह भी निर्देश

अवकाश पर हो या न्यायालय का पद रिक्त होने की दशा में आगामी नियत दिनांक की जानकारी न्यायालय के रीडर/निष्पादक लिपिक से प्राप्त करे और यदि किसी कारणवश् उक्त नियत दिनांक शासकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई अगले

आपको सचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई दिनांक 11.08.2023 को इस न्यायालय में हाजिर उपसंजात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई तथा उसका निपटार आपकी अनपस्थिति में किया जावेगा। यह समंस/नोटिस आज दिनांक 03-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी किया गया। स्थान-इंदौर (मप्र)

(श्रीमती प्रवीणा व्यास) अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश महोदय, दिनांक-03-07-2023 कुटुम्ब न्यायालय इंदौर

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक INDLP230623956/ दिनांक/18/JUL/2023 दिनांक 15/JUL/2023 क्र./1184

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29 (3) सहपठित म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 14 (3) के अधीन दी गई अनुज्ञ में उपातरण की दशा में आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेत्

जनसामान्य की जानकारी हेतु एतद् द्वारा यह अधिसुचित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती / मेसर (BHUPESH SANGHVI) -RAHELA ENGINEERS PVT.LTD. TARFI DIRECTOR: - SHRI BHUPESH SANGHVI S/O LATE SHRI JAYANTI LAL SANGHVI ADRESS- 21, PRAGATI VIHAR COLONY, BICHOL MARDANA INDORE M.P. नीचे दिये गये अभिन्यास में उपांतरण हेतु आवेदन किया है: (क) परियोजना का नाम :- RESIDENTIAL , MULTIDWELLING BLOCKS (ख) अवस्थिति (अवस्थिति / ग्राम का नाम एवं खसरा क्रमांक):- पूर्व स्वीकृत ग्राम Nihalpu Mundi तहसील Rau व जिला Indore की भूमि सर्वे क्रमांक / खसरा क्रमांक 241/2/1

241/3 कुल रकबा 1.05 हेक्टेयर भूमि पर RESIDENTIAL , MULTI UNIT विकास हेतु अनुमोदित अभिन्यास में संशोधित अभिन्यास का अनुमोदन चाहा गया है।

(ग) विकास का प्रयोजनः - RESIDENTIAL, MULTI UNIT (घ) स्वीकृति क्रमांक : 6562 दिनांक 2009-11-18

पूर्व स्वीकृत अभिन्यास में यदि उपांतरण किया जाता हैं, तो उससे परियोजना से जुड़े व्यक्ति/संस्था के हित प्रभावित होने की संभावना है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति,उपांतरणों से संबंधित अपनी आपत्ति या सुझाव, इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में अथवा https://dtcp.mp.gov.in/alpass/web/objection.aspx?RefApp=cQq65JjYxm प्र प्रस्तुत कर सकेगा। पूर्व स्वीकृत अभिन्यास के ब्यौरे तथा प्रस्तावित उपांतरित अभिन्यास का निरीक्षण हितबतद्ध व्यक्ति द्वारा, उपरोक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान अथवा websit https://dtcp.mp.gov.in/alpass/web/uLogin.aspx पर किया जा सकता है।

> संयक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला इन्दौर (म.प्र.)

मंत्री भूपेंद्र सिंह का दावा- वे नहीं करेंगे अपना चुनाव प्रचार

भोपाल,(निप्र)। मध्यप्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चनावों को लेकर एक

तरफ जहां राजनेता गुणा भाग में जुट गए हैं और हर तरीके से अपनी जीत की राह तलाश रहे हैं। वहीं इसी बीच प्रदेश सरकार के मंत्री

भूपेन्द्र सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है। मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने ऐलान किया है कि वो विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद अपना प्रचार करने के लिए अपनी विधानसभा के किसी भी क्षेत्र में

नाम परिवर्तन सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम दार्निश खान पिता शब्बीर अहमदे खान निवासी- 723 आजाद नगर इंदौर (मप्र) था तथा मैं अपना नाम बदलकर मृत्युंजय सिंह पिता शब्बीर **अहमद खान** करवाना चाहता हूं। अब मैं

अपने नये नाम **मृत्यंजय सिंह पिता शब्बीर**

अहमद खान के नाम से जाना पहचाना

व पुकारा जाऊंगा तथा इसी नाम से

हस्ताक्षर करुंगा । सो विदित होंवें । दानिश खान | मृत्युंजय सिंह नहीं जाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया है कि विकास कार्यों के दम पर जनता ही उन्हें चुनाव

जिताएगी। भूपेन्द्र सिंह ने भरोसा जताते हुए कहा है कि विधानसभा क्षेत्र में सरकार व उनके द्वारा किए गए विकासकार्यों को देखते हुए जनता खुद उन्हें

चुनाव में जिताएगी। बता दें कि भूपेन्द्र सिंह सागर जिले की खरई विधानसभा सीट से विधायक हैं। हालांकि इस बार भूपेन्द्र सिंह ने ये भी कहा है कि पार्टी जिस भी विधानसभा सीट से उन्हें टिकट देगी वो वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।

नाम परिवर्तन सूचना

पूर्व में मेरा नाम विनीत कुमार पिता रमेश चंद्र त्रिवेदी (25 आरएनटी मार्ग इंदौर) था, जो अब बदलकर विनीत त्रिवेदी हो गया है। अतः अब से मझे विनीत त्रिवेदी नाम से ही जाना और

-विनीत त्रिवेदी

उजास एनर्जी लिमिटेड

पंजीकत कार्यालय : सर्वे नं. 211/1. सेक्टर सी व मेटलमैन के सामने सांवेर रोड इंडस्टियल एरिया, इन्दौर - 452015 (म.प्र.) फोन: 0731-4715300 फैक्स: 0731-4715344 ईमेल: cs@ujaas.com वेबसाईट: www.ujaas.com

शेयरधारकों को नोटिस दावा न किए गए लामांश और इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरण

आईईपीएफ नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा १२४ (६) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए दावा न किए गए लाभांश और इक्विटी शेयरों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (आईईपीएफ) में हस्तांतरण की आवश्यकता है, जिसके संबंध में लगातार सात . साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान / दावा नहीं किया गया है। कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरण के लिए देय शेयरों का विवरण अपनी वेबसाइट www.ujaas.com पर अपलोड किया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आईईपीएफ में हस्तांतरित किए जाने वाले शेयरों के विवरण को सत्यापित करें और 21 अक्टूबर 2023 तक अपने लावारिस लाभांश का शीघ्रता से दावा करें।

शेयरधारक ध्यान दें कि वे दावा नहीं किए गए लाभांश और आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित शेयरों दोनों का दावा कर सकते हैं, आईईपीएफ फॉर्म आईईपीएफ-5 (वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध) में एक ऑनलाइन आवेदन जमा करके और उसकी एक भौतिक प्रति भेजकर, उक्त प्रपत्र IEPF-5 में उल्लिखित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित, कंपनी को ऊपर उल्लिखित पते पर।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक और जिनके शेयर आईईपीएफ मे स्थानांतरित होने के लिए उत्तरदायी हैं, वे ध्यान दें कि हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए, कंपनी नया शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और शेयरों को डीमैट रूप में बदलने के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी को सूचित करेगी और आईईपीएफ के पक्ष में स्थानांतरण करेगी। इस तरह के मुद्दे पर मुल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हो जाएगा और गैर–परक्राम्य माना जाएगा। डीमैट मोड में धारित शेयरों के लिए, कंपनी आईईपीएफ के पक्ष में शेयरों के हस्तांतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी के साथ शेयरों के हस्तांतरण की प्रक्रिया करेगी। शेयरधारक आगे नोट कर सकते हैं कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरण को कंपनी द्वारा नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त नोटिस के रूप में माना जाएगा, जिसका एकमात्र उद्देश्य आईईपीएफ को शेयरों के हस्तांतरण के लिए आईईपीएफ नियमों के अनुसार है। यदि कंपनी को 21 अक्टूबर 2023 तक संबंधित शेयरधारकों से कोई संचार प्राप्त नहीं होता है. तो वह उक्त आईईपीएफ नियमों के अनुसार शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरित कर देगी। कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को हस्तांतरित किए गए लावारिस लाभांश और शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं

यदि शेयरधारक उन शेयरों का दावा करने में असमर्थ हैं जिनके लाभांश का दावा देय तिथि से पहले नहीं किया गया है, तो कंपनी आईईपीएफ नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करने के लिए आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयरों के हस्तांतरण के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करेगी। आईईपीएफ नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, शेयरधारक कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर

ट्रांसफर एजेंट से यहां संपर्क कर सकते हैं: बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक: 18/07/2023

स्थान : इन्दौर

एस6—2, छठी मंजिल, पिनेकल बिजनेस पार्क, अहुरा सेंटर के बगल में, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र, 400093 दूरभाष : 022 62638200

कृते उजास एनर्जी लिमिटेड

सर्वेश दीवान कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

दिव्यांगजनों के चिन्हांकन हेतु शिविर २७ एवं २८ को के विषय विशेषज्ञ दल द्वारा उक्त शिविर में

विदिशा (निप्र)। भारतीय कत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) उज्जैन द्वारा विदिशा जिले में दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 27 जुलाई को विदिशा के जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रतथा 28 जुलाई को सिरोंज के अम्बेडकर भवन, दो दिवसीय दिव्यांगजन चिन्हांकन हेतु शिविर को आयोजन किया गया है, जिसमें दिव्यांगजनों से संबंधित उनकी दिव्यांगता के आधार पर कृत्रिम सहायक उपकरण जैसे 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को मोटराईज्ड ट्रायसाईकिल (बैटरी चलित) एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को हाथ से चलने वाली ट्रायसाईकिल, व्हील चौयर, वैशाखी, वॉकर, श्रवणयंत्र, स्मार्ट फोन, ब्लांइड स्टिक एवं फोल्डिंग स्टिक आदि के लिए एलिम्को

चिन्हांकित किया जाएगा। दिव्यांगजनों जिन्हें पर्व में सहायक उपकरण प्रदाय

किये जा चुके हैं, जिनकी अवधि 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं, उन्हें एवं जो दिव्यांगजन सहायक उपकरण प्रदाय हेतु शेष रहे हैं उन्हें उक्त शिविर में आमंत्रित किया गया है, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को उपकरण हेतु चिन्हांकित किया जा सकें, जिससे शेष दिव्यांग जनों सहायक उपकरण उपलब्धता हो सकें। उपरोक्त शिविर में आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड एवं समग्र आईडी की छायाप्रति, दिव्यांग एवं युडीआईडी कार्ड की छायाप्रति, बीपीएल कार्ड एवं 25 हजार मासिक से कम का पंचायत एवं तहसील से प्रमाणित आय प्रमाण पत्र एवं एक पासपोर्ट साईज

का फोटो लाना अनिवार्य है।

Public Notice is given that the Unit No. IEWS/F/GROUND/011 at "Omaxe Mayakhedi EWS

Mrs. Chavarani Kanare Wife 51

The above named persons have requested M/s Omaxe Ltd. to transfer the allotment of Late Shri Raychandra Kanare in the above